

केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार

उच्च लेखा एवं बही खाता (पुस्तक रहित)—बिहार सहकारिता सेवा (अंकेक्षण प्रभाग) के पदाधिकारियों के लिए।

समय—1.30 घंटे

पूर्णांक—100

उत्तीर्णांक—60

Section-'A'/खंड-'क'

Objective type questions/वरतुनिष्ठ प्रश्न

Answer all the questions. Out of the four alternative given for each only **one** option is correct. Wrong answers carry no negative marks. Each questions is of **two** marks. सभी प्रश्नों का उत्तर दें। चार विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है। गलत उत्तर के लिए अंक काटे नहीं जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंक के हैं।

1. The System of recording transactions based on Dual concept is called—

- (a) Double Account system (b) Single entry system
 (c) Double Entry System (d) Single Account System

दोहरे सिद्धांत पर संव्यवहार दर्ज करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं—

- (क) दोहरी लेखा पद्धति (ख) एकल प्रविष्टि पद्धति
 (ग) दोहरी प्रविष्टि पद्धति (घ) एकल लेखा पद्धति

2. Cost accounting is the process of accounting for—

- (a) Purchase (b) Bills payable
 (c) Interest payable (d) Cost

लागत लेखा, लेखा संधारण की प्रक्रिया है—

- (क) क्रय (ख) भुगतये अभिश्रव
 (ग) भुगतये ब्याज (घ) लागत

3. 'Annual Financial Statement' is commonly know as—

- (a) Revenue Budget (b) Budget
 (c) Capital Budget (d) Fiscal arrangement

'वार्षिक वित्तीय बयान' को सामान्यतया जाना जाता है—

- (क) राजस्व बजट (ख) बजट
 (ग) पूंजीगत बजट (घ) राजकोषीय व्यवस्था

4. Under which section of the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 is the power for the audit of the co-operative societies vested in the registrar, co-operative societies—

- (a) Section 36 (b) Section 34
 (c) Section 35 (d) Section 33

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की किस धारा के अन्तर्गत निबंधक सहयोग समितियों में सहकारी समितियों के अंकेक्षण की शक्तियां निहित है—

- (क) धारा 36 (ख) धारा 34
 (ग) धारा 35 (घ) धारा 33

5. Which of the options can be taken as working capital—

- (a) Deposits+Borrowing (b) Deposits-Investment
 (c) Deposits-Losses (d) Deposits+Profit

निम्नलिखित में कौन-सा विकल्प कार्यशील पूंजी का उदाहरण है—

- (क) जमा+उधार (ख) जमा-निवेश
 (ग) जमा-हानि (घ) जमा+लाभ

6. Which of the following is an example of revenue expenditure—

- (a) Purchase of building (b) Purchase of car
 (c) Payment of electric bills (d) None of these

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प राजस्व व्यय का उदाहरण है—

- (क) भवन का क्रय (ख) वाहन का क्रय
 (ग) विजली बिल का भुगतान (घ) कोई नहीं

7. What is the cut off date for the preparation of the Annual Balance Sheet ?

- (a) 31st March (b) 30th June
 (c) 31st December (d) 30th September

किस तिथि को आधार बनाकर वार्षिक तुलन पत्र को तैयार किया जाता है—

- (क) 31 मार्च (ख) 30 जून
 (ग) 31 दिसम्बर (घ) 30 सितम्बर

8. Under which section of the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 is an empowered to raise surcharge proposal—

- (a) Section 42 (b) Section 41
 (c) Section 40 (d) Section 48

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की किस धारा के अन्तर्गत अंकेक्षक को अधिभार प्रस्ताव प्रतिवेदित करने की शक्ति प्राप्त है —

- (क) धारा 42 (ख) धारा 41
 (ग) धारा 40 (घ) धारा 48

9. The CAG of India is appointed under which article of the Indian Constitution—

- (a) Article 143 (b) Article 148
 (c) Article 150 (d) Article 158

भारत के कैंग की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अन्तर्गत की जाती है—

- (क) अनुच्छेद 143 (ख) अनुच्छेद 148
 (ग) अनुच्छेद 150 (घ) अनुच्छेद 158

10. In India Balance Sheet is the same as—

- (a) Annual Audit (b) Continuous Audit
 (c) Detailed Audit (d) Statutory Audit

भारत में तुलन पत्र का अभिप्राय है—

- (क) वार्षिक अंकेक्षण (ख) निरंतर अंकेक्षण
 (ग) विस्तृत अंकेक्षण (घ) वैधानिक अंकेक्षण

11. A good auditor should assume that management is—

- (a) Reasonably honest (b) Neither honest nor dishonest
 (c) Absolutely honest (d) Absolutely dishonest

एक अच्छे अंकेक्षक की प्रबंधन के बारे में क्या मान्यता होनी चाहिए—

- (क) प्रबंधन सामान्यतः ईमानदार है (ख) प्रबंधन न ही ईमानदार न ही बेईमान है
 (ग) प्रबंधन पूरी तरह ईमानदार है (घ) प्रबंधन पूरी तरह बेईमान है

12. Concurrent Audit is part of—

- (a) Internal Control System (b) External Control System
 (c) Internal Audit System (d) External Audit System

संवर्ती अंकेक्षण का अभिप्राय है—

- (क) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (ख) वाह्य नियंत्रण प्रणाली
 (ग) आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली (घ) वाह्य अंकेक्षण प्रणाली

13. Balance sheet audit includes verification of—

- (a) Assets (b) Liabilities
 (c) Income and Expenditure Account (d) All of the above

निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी जाँच तुलन पत्र अंकेक्षण में की जाती है—

- (क) आस्तियाँ (ख) देनदारियाँ
 (ग) आय एवं व्यय खाता (घ) उपरोक्त सभी

14. Which side of the balance sheet is profit placed on—

- (a) On the asset side (b) On the liabilities side
 (c) On both sides (d) On neither side

लाम को तुलन पत्र के किस भाग में दर्शाया जाता है—

- (क) आस्तियों वाले भाग में (ख) देनदारियों वाले भाग में
 (ग) दोनों तरफ (घ) दोनों में से किसी तरफ नहीं

15. "Debit what comes in and credit what goes out" applies to—

- (a) Personal Accounts (b) Savings Accounts
 (c) Real Accounts (d) Nominal Accounts

"जो वस्तु या सम्पत्ति आती है उसका खाता डेबिट हो तथा जो वस्तु या सम्पत्ति जाती है, उसका खाता क्रेडिट हो" यह नियम किस खाते के संदर्भ में लागू होता है—

- (क) व्यक्तिगत खाते (ख) बचत खाते
 (ग) वास्तविक खाते (घ) अवास्तविक खाते

16. "Debit the receiver and credit the giver" is applicable to—

- (a) Real Accounts (b) Personal Accounts
 (c) Nominal Accounts (d) Joint Accounts

"पाने वाले खाते को डेबिट तथा देने वाले खाते को क्रेडिट किया जाता है" यह नियम किस खाते के संदर्भ में लागू होता है—

- (क) वास्तविक खाते (ख) व्यक्तिगत खाते
 (ग) अवास्तविक खाते (घ) संयुक्त खाते

17. Which of the following types of audit is of recent origin—

- (a) Statutory audit (b) Social audit
 (c) Concurrent audit (d) Interval audit

निम्नलिखित में से कौन-सा अंकेक्षण सबसे नया है—

- (क) वैधानिक अंकेक्षण (ख) सामाजिक अंकेक्षण
 (ग) संवर्ती अंकेक्षण (घ) आंतरिक अंकेक्षण

18. Which of the following options states the objectives of Bank Reconciliation statement—

- (a) Verification of the accuracy of the entries
 (b) Helpful in the preparation of reliable final accounts
 (c) Control over fraud (d) All of the above

निम्नलिखित में से कौन विकल्प बैंक समाधान विवरण के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं—

- (क) प्रविष्टियों की शुद्धता की जाँच (ख) विश्वसनीय अंतिम खाते के निर्माण में सहायक
 (ग) गबन पर नियंत्रण (घ) उपरोक्त सभी

19. Which type of partner invests capital in a partnership firm but does not participate in the management of the firm—

- (a) Active partner (b) Dormant partner
 (c) Nominal partner (d) Actual partner

किस तरह के साझेदार, साझेदारी फर्म में अपनी पूंजी तो लगाते हैं पर फर्म के प्रबंधन में भाग नहीं लेते हैं—

- (क) सक्रिय साझेदार (ख) निष्क्रिय साझेदार
 (ग) नाम-मात्र के साझेदार (घ) वास्तविक साझेदार

20. Subsidiary books are maintained to—

- (a) Keep separate record of each type of transaction
 (b) Save time and labour in journal
 (c) Detect the errors quickly (d) Prepare the balance sheet

सहायक बहियों का संधारण किसलिए किया जाता है—

- (क) प्रत्येक संव्यवहार का अलग रिकार्ड रखने हेतु
 (ख) रोजानामचे में समय और श्रम बचाने हेतु (ग) गलतियों को तुरंत खोजने के लिए
 (घ) तुलन पत्र तैयार करने के लिए

21. A person deposits Rs. 50,000 in his savings Bank Account. The Bank will—

- (a) Credit his account by Rs. 50,000 (b) Debit his account by Rs. 50,000
 (c) First credit then debit his account by Rs. 50,000
 (d) None of the above

अगर कोई व्यक्ति अपने बचत खाते में 50,000 रु० जमा करता है तो, बैंक—

- (क) उसके खाते को 50,000 रु० से क्रेडिट करेगा (ख) उसके खाते को 50,000 रु० से डेबिट करेगा
 (ग) उसके खाते को पहले 50,000 रु० से क्रेडिट कर फिर डेबिट करेगा
 (घ) उपरोक्त में से कुछ भी नहीं

22. Agreement of trial balance includes—

- (a) Accuracy of Book keeping
 (b) Proper maintenance of Books of account
 (c) Airthmetical accuracy of Books (d) None of the above

शुद्ध तलपट का अभिप्राय है—

- (क) पुस्तपालन का सही होना (ख) खाते का उचित संधारण
 (ग) खातों की गणितीय शुद्धता (घ) उपरोक्त में कोई नहीं

23. Equity share holders are also known as—

- (a) Owners (b) Creditors
 (c) Customers (d) Debtors

साम्या शेयर धारक का आशय है—

- (क) स्वामी (ख) ऋणदाता
 (ग) ग्राहक (घ) ऋणधारक

24. In case of non-agreement of trial balance the amount is temporarily put to—

- (a) Real Account (b) Nominal Account
 (c) Stock Account (d) Suspense Account

तलपट के दोनों पक्षों में सहमति नहीं होने की स्थिति में शेष राशि किस खाते में रखा जाता है—

- (क) वास्तविक खाता (ख) अवास्तविक खाता
 (ग) स्टॉक खाता (घ) भूल-चूक खाता

25. An auditor accepts an audit but does not possess the necessary expertise for under taking the audit. What should he do—

- (a) He should engage experts
 (b) He should obtain knowledge of matters relating to the nature of entity's business
 (c) He should inform management about it
 (d) He should take the help of other auditors

एक अंकेक्षक, अंकेक्षण करना स्वीकार करता है परन्तु उस फर्म का अंकेक्षण करने हेतु उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिये—

- (क) उसे विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिये
 (ख) उस फर्म के व्यावसाय की प्रकृति के बारे में उसे प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिये
 (ग) प्रबंधन को इस बारे में सूचित करना चाहिये
 (घ) उसे दूसरे अंकेक्षकों की मदद लेनी चाहिये

Section-'B'/खंड-'ख'

Short answer type question/लघु उत्तरीय प्रश्न

Answer any **four** of the questions given below.

नीचे दिये गये प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर दें।

1. What are the rules of debit and credit in Double Entry Book keeping ? (5)

दोहरी लेखन पद्धति के नामे (debit) एवं जमा (credit) के क्या नियम हैं ?

2. What is Bank Reconciliation Statement ? (5)

बैंक समाधान विवरणी क्या है ?

3. What is Trial Balance ? How is it different from Balance Sheet ? (5)

तलपट विवरणी से क्या अभिप्राय है ? तलपट विवरणी तुलन पत्र से कैसे भिन्न है ?

4. Write short notes on the following:— (5)

- (a) Depreciation (b) Liabilities

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- (क) मूल्य ह्रास (ख) देनदारियां

5. Explain the importance of Journals. (5)

रोजनामचा के महत्व को स्पष्ट करें।

6. Describe the basic function of the comptroller and Auditor General (CAG) of India. (5)

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (CAG) के मौलिक कार्य का वर्णन करें।

Long answer type questions/दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Answer any **two** questions. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें।

1. Which are the principles of audit ? Explain the objects and advantages of audit. (15)

अंकेक्षण के सिद्धांत कौन-से हैं ? अंकेक्षण के उद्देश्य एवं लाभ को स्पष्ट करें।

2. Explain the importance of cost accounting as a managerial tool. (15)

एक प्रबंधकीय उपकरण के रूप में लागत लेखा को स्पष्ट करें।

3. Analyse the difference between the Government Audit and the audit of co-operative societies. (15)

सरकारी अंकेक्षण एवं सहकारी समितियों के अंकेक्षण के बीच के अन्तर की समीक्षा करें।